https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n0/mode/1up

All Items on https://archive.org/details/realpatidar

realpatidar.com

Full Library on https://realpatidar.com/library

स्नान करवानी दुवा

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम –
स्नान करुं छुं . (ब्रम्हचर्या , गृहस्था , वानप्रस्था , सन्यास) आश्रमनुं , श्रीगोर नरने आज्ञा प्रमाणे जे थी शरीर अने आत्मा पवित्र थवा अने जे , जे, वस्तु तेमां पवित्र थवानी छे, ते साथे फर्मान ''परिशाह''
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो , महमंदुर्रसुल्लिहे.

(धूप लोबान नी दुवा)

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम.
सद्‌गोर पात्र ब्रम्हा ईंद्र ईमामशाह , आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह तमारी दुवा .
आंहे दरुद , जाअे दरुद , दरुद नबीपर , अल्लाहो फातेहा. अगर जले, पीडा टले . साहेब जागे स्थेतान भागे. धूप त्यां रुप . देव त्या पूजा. अलख निरंजन निराकार अवर देव नही दुजा.
सद्‌गोर ईमामशाह नरअली महमंद शाह.
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्र सुलिल्लाहे.

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n1/mode/1up

Real Patidar Library

https://www.realpatidar.com/library

This book/literature/article/material may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden.

The library does not give any warranty express or implied or make any representation that the contents will be complete or accurate or up to date. The library shall not be liable for any loss, actions, claims, proceedings, demand, or costs or damages whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with or arising out of the use of this material.

Full terms and conditions of use: http://www.realpatidar.com

About Real Patidar books

Real Patidar's mission is to organize the information on Satpanth religion, which is a Nizari Ismaili sect of Shia branch of Islam, and to make it universally accessible and useful. Real Patidar Books helps readers discover the material on Satpanth online while helping authors and researchers in their studies. You can know more by visiting http://www.realpatidar.com

You can resize and move this box in any PDF Application like Adobe Acrobat Reader.

No specific pages. See whole book.
References by: RealPatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n2/mode/1up

realpatidar.com

स्नान करवानी दुवा

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम –
स्नान करुं छुं . (ब्रम्हचर्या , गृहस्था , वानप्रस्था , सन्यास)
आश्रमनुं , श्रीगोर नरने आज्ञा प्रमाणे जे थी शरीर अने आत्मा
पवित्र थवा अने जे , जे, वस्तु तेमां पवित्र थवानी छे, ते साथे
फर्मान ''परिशाह''
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो , महमंदुर्रसुल्लिहे.

(धूप लोबान नी दुवा)

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम.
सद्‌गोर पात्र ब्रम्हा ईंद्र ईमामशाह , आद्य विष्णु निरंजन नरअली
महमंदशाह तमारी दुवा .
आंहे दरुद , जाअे दरुद , दरुद नबीपर , अल्लाहो फातेहा. अगर
जले, पीडा टले . साहेब जागे स्थेतान भागे. धूप त्यां रुप . देव
त्या पूजा. अलख निरंजन निराकार अवर देव नही दुजा.
सद्‌गोर ईमामशाह नरअली महमंद शाह.
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्र सुलिल्लाहे.

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n3/mode/1up

realpatidar.com

(दिवा जोतने प्रणामनी दुवा)

ॐ फर्नानजी बिस्मिल्लाह हिरें हमां निर्रहीम.
सद्‌गोर पात्र ब्रम्हाा ईंद्र ईमामशाह, आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह ! तमारी दुवा. गोर दिवो , गोर देवता , गोर विना घोर अंधार. गोर विना युक्ति नही. गोर विना मुक्ति नही. मन तालुं कल्मो कुंची . खोलो धर्मद्वार. देखो महमंदशाह का दिदार. जागे जोत भागे छोत. सद्‌गोर ईमामशाह , नरअली महमंदशाह हक्क लाअे लाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्रसुलिल्ला हे.

अे दुवा . नाही धोई घीनो दिवो करी ते जोतने , अथवा देवजुगतनी जोतने , तथा अखंड घीनी जोतने प्रणाम करवानी छे. जोत आगळ हाथ जोडी उभा रही भणी पछी प्रमाण करवो.

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n4/mode/1up

realpatidar.com

" फुल , चंदनादि द्रव्यो चडाववानी " दुवा

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .

सद्‌गोर पात्र ब्रम्हाा , ईंद्र ईमामशाह , आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह तमारी दुवा. स्वामी ! पान , फुलना भोगदारी तमे छो. स्वामी ! केशर , कस्तुरीनां भोगदारी तमे छो. स्वामी ! अगर , चंदन मुश्कना भोगदारी तमे छो. स्वामी ! अत्तर , अबील , गुलाबना भोगदारी तमे छो. स्वामी ! दाता भोक्ता तमे छो. स्वामी ! पान, फुलनो अहार तमारो छे. स्वामी ! तमारो अहार , व्यवहार पान फुलनो तमे लो आहार. सद्‌गोर ईमामशाह नरअली महमंदशाह.

हक्क लाओ लाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्रसुलिल्ला हे.

(अे दुवा . पवित्र स्थळोअे सुगंधी द्रव्यो फुल , चंदन , अबीर , गुलाबजल , अत्तर , केसर कस्तुरी आदि) चडावती वेळाअे भणवो.

" तोबा भणावानी दुवा "

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .

सद्‌गोर पात्र ब्रम्हाा ईंद्र ईमामशाह , आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह तमारी दुवा. साहेब तोबा हजार वार. आ बंदो गुन्हेगार. बक्षो गुना लाख. अव्वल आखर शाह मुर्तुझा अली पाक. अव्वल शाह अली. आखर ईमाम मेहेंदी. जांबु द्विपना आधार विष्णु नारायण. विश्वना आधार . सृष्टिना सृजनहार. जांबुद्विपे धर्यो अवतार. रेहेणी कीजे खेर. दिवस कीजे म्हेर. नेहकी नजर धरो. बंदनी मुश्केल आसन करो. सद्‌गोर ईमामशाह , नरअली महमंदशाह.

हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्र सुलिल्ला हे.

realpatidar.com

realpatidar.com

संध्यानो मंत्र (वखत पडवानी दुवा)

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .
सद्गोर पात्र ब्रम्हाा ईंद्र ईमामशाह, आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह, तमारी अम्मर द्रष्टे करी, करम मेहेर करी , अमारा पातक दुर करो. तोबा वखत (आ ठकाणे चार वखत माहेथी जे वखत होय तेनुं नाम लेवुं सवारनुं,बपोरनुं ,सांजनुं,मध्य रातनुं) कबुल करो. या शाहअली मुर्तुजा , या ईमाम हसन हुश्येन , या ईमाम झयनुल आबेदी , या ईमाम महमंद बाकर , या ईमाम जाफरो सादिक , या ईमाम ईस्माईलशाह , या ईमाम नुरमहमंदशाह, या ईमाम मुन्तेसर बिल्लाह , या ईमाम शम्सोदीन या ईमाम ईस्लामशाह , या ईमाम नुरमहमंदशाह, या ईमाम नरअली महमंदशाह. आखर जमानाना शाहो. अमारी तोबा बंदगी कबुल करो. दीदार दो. तोबो तोबो बंदो गुनेगार , साहेब तो बक्षणहार , बंदो तोबा करे, साहेब कबुल करे. बक्षोबक्षण हार सचो पीर फर्मान.
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्रसुलिल्ला हे.
(आटलुं भणी रह्या पछी शिजेदा करवो . पछी अेक माळा कलमानी , पण मध्य रातनी वेळा होय , तो बे माळा कलमानी ने अेक माळा ' पीरशाहनी' करीव. पछीशिजदो करी बे हाथ जोडी माथुं भोंय उपरज रहेवा दई नीचे प्रमाणे भणुवं)
सुभान अल्लाहे , या अल्लाह , या अली , या अली , या अली.
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्रसुलिल्लाहे.
(अेटलुं भणी शिजेदा करी अेक माळा ' पीरशाहनी ' करवी पछी नीचेनी दुवा भणवी)

realpatidar.com

realpatidar.com

ॐ

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .
सद्‌गोर पात्र ब्रम्हाा ईंद्र ईमामशाह, आद्य विष्णु तमारी दुवा.
प्रथम तमे स्वामी श्री मच्छ , श्री कच्छ . श्री व्याराह , श्री नृसिंह ,
श्री वामन , श्री परशुराम , श्री राम , श्री कृष्ण , श्री बुध्द , श्री
शीस , श्री नुह, श्री ईब्राहीम , श्री ईस्माईल , श्री सुलेमान , श्री
तेजअली तेज आज नरअली महमंदशाह , अन्ते श्री निष्कलंकी
नारायण ईमाममेंहदी. तमारा ऋषिवरोनी लाज राखी. गुना बक्षी,
करम मेहर करी , तमारा बंदा जाणी अरज बंदगी कबुल करो.
सुभान , करीम , रहीम , किर्तार तुंही दातार , या अली या अली
या अली . नुरेनुर आया सोही ते नुर अली महमंद लेजो जोई तुंही
नुर अली अमारी दुवा कबुल करो. ' सचो फर्मान ' नुर सद्‌गोर
ब्रम्हाा पात्र ईद्र ईमामशाह , निरंजन नरअली महमंदशाह अमारी
दुवा कबुल करो.
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्ला हो महमंदुर्रसुलिल्लाहे.
(आटलुं भण्या पछी शिजदो करी अेक माळा ' पीरशाह ' नी
करी शिजदो करवो)

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n7/mode/1up

realpatidar.com

चारे वखतनां नाम
सवार , बपोर , सांज , मध्यरात

वखत नो समय

सवार नो समय . सूर्य उग्याथी पेहेला भांख फुट्या पछी , अजवालुं थाये परोढनुं त्यारथी.

बपोरनो समय . सूर्य माथा उपरथी ढळ्या पछी (अेटले बे पोहर पूरा थई गया पछी) अेटले आशरे अेक वाग्या पेहलां ने बार वाग्या पछी.

सांजनो समय . सूर्य पूरेपूरो आथमी जाये ते पछी ने गाढ अंधकार थाअे ते पेहेला.

मध्य रातनो समय . बे पोहर रातनां गया पछी. ने रातना अेक वाग्या पेहेला.

उपर बतावेलो समय उत्तम छे. ते पछी अेक कलाकनो मध्यम, ने ते पछीनो कनिष्ट छे.

समयमां जे टाईम मले के सांभरी आवे ते समय तुर्त संध्या (वखत) करवी. (समय पूर्ण थई गया पछी पण आळस करी संध्या विना रहेवुं नहि.

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n8/mode/1up

realpatidar.com

" कुल ऋषिवरने हेजंदानी दुवा "

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .
सद्गोर पात्र ब्रम्हाा ईंद्र ईमामशाह, आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह , सद्गोर पीर कबीरदीन सद्गोर पीर सुदरदीन , सद्गोर परी साहेब दीन, सद्गोर पीर नसीरदनी , सद्गोर पीर शम्मसदीन , नर ईस्लामशाह , नरअली निरंजन नाम , नबीनुर सद्गोर तमारी दुवा. आद्य नारायणने हेजंदा. ब्रम्हाा , विष्णु , महेश्वरने हेजंदा . आद्य शक्तीने हेजंदा. सात फीर्स्ताने हेजंदा. बावा आदमने हेजंदा . मामा हवाने हेजंदा . नबी महमंदने हेजंदा . हक्कशाह मुर्तुजा अलीने हेजंदा आद्य शक्ति बीबी फातेमाहने हेजंदा. ईमाम हसन , हुश्येन ने हेजंदा . सित्तेर शेहेस्त्रे हुश्येनी कुलकायमनां परवाने हेजंदा . धरती , आकाश ने हेजंदा, पवन , पाणीने हेजंदा . चंद्र सूर्यने हेजंदा . नवलख ताराने हेजंदा . बार मेघने हेजंदा . नवकुळनागने हेजंदा . सात समुद्रने हेजंदा. नवसे नवाणुं नदीयोने हेजंदा . सात वार सत्तावीश नक्षेत्रने हेजंदा . पंदरतिथी बार करणने हेजंदा . नव ग्रहने हेजंदा. सात द्वीपने हेजंदा नव खंड पृथ्वीने हेजंदा. चोवीस मुलकने हेजंदा . अष्टकुल पर्वत नेहेजंदा. अढारभार वनस्पतीने हेजंदा. चार वेदने हेजंदा . चार किताबने हेजंदा . चार खाणी , चार वाणीने हेजंदा. आग्नि , तेज , अन्न देवने हेजंदा . आद्य , मध्य अन्त देवने हेजंदा उत्तर , दक्षिण , पुर्व पश्चिमने हेजंदा. नवनाथ चोराशी सिध्दने हेजंदा. अठयासी शेहेस्त्र

realpatidar.com

realpatidar.com

ऋषिने हेजंदा . अेक लाख अेंसी हजार पीर पेगम्बरने हेजंदा. नव्वाणुं क्रोडी जांखाने हेजंदा . छप्पन क्रोडी मेघाने हेजंदा . बत्रीस क्रोडी कीन्नरने हेजंदा. पांच क्रोडी प्रेहेलादने हेजंदा. सात क्रोडीशुं हरिचंद्रने हेजंदा . नव क्रोडीशुं युधिष्टिरने हेजंदा. बार क्रोडी शुं कमला कुंवरने हेजंदा. कुल ऋषिवर गत गंगाने हेजंदा . मुखी मुशाफिरने हेजंदा.

चौद भुवननां देव ऋषिवरने हेजंदा. करण कलफनां अनंत करोडी देवने हेजंदा. नबी नुरसद्गोर नरईस्लामशाह हमारा गुनाह बक्षो. सत्पंथनां मार्गमां राखो. लक्ष चोरासीना फेरा टाळो . तेत्रीस क्रोडीनो मेळो आलो. जांबु द्वीपना धणी तमे चिन्ता करो सत्पंथी जीवतणी. सद्गोर ईमामशाह , नरअली महमंदशाह. हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्रसुलिल्लाहे.

realpatidar.com

realpatidar.com

" मोहोर नबुवतनी दुवा "

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .

मोहर नबुवत नबी साहेब नुं नुर छे. नुरवे नुर ईमाम जादे साहेब ईमाम हसन , ईमाम हुश्येन . सल्लाल्लाहो अल्येहे वस्सल्लम. मोहर नबुवत मांहेनी पेदा कर्या छे. नबुवतनुं नुर फातमांह झेहरा, ईमाम झयनुल आबेदीन. नुर नबुवतके पेगम्बर, सवालाखके , नबुवत सैयद ईमाम नुर निष्कलंकी नारायण निरंजनंग उत्तमम.

निष्कंलंक सप्तभरमांड लोह कलम , स्वामी उनाद अविगत नुरे सरजते सप्त पातालंग. मोहर नबुवत श्री मच्छा जनार्दनंग. मोहर नबुवत श्री कूर्म जानार्दनंग. मोहर नबुवत श्री व्याराह जनार्दनंग. मोहर नबुवत श्री नृसिंह जनार्दनंग मोहर नबुवत श्री वामन जनार्दनंग. मोहरनबुवत श्री परशुराम जनार्दनंग. मोहर नबुवत श्री राम जनार्दनंग. मोहर नबुवत श्री कृष्ण जनार्दनंग. मोहर नबुवत श्री बुध्दा जनार्दनंग. मोहर नबुवत श्री निष्कलंकी जनार्दनंग. शाह मुर्तुझा अली आज निष्कलंकी. विष्णुवा थरो अथरो विष्णु डालो ब्रम्हा. श्री साम धरमंग जनार्दनंग. केवलासी श्री नुर सद्गोर हरगोविंद. श्री ईस्माईलशाह नर गोविंद निष्कलंकी. नुर नबुवत धर्म मार्ग समात्रंग शंख, चक्र ,गदा , पद्य, सारंगधर धर्म ओत्मंग , ईमाम हसन ईमाम हुसेन ,ईमाम जेनुंल आबेदीन ईमाम महमंद बाकर , ईमाम जाफरो सादिक, ईमाम ईस्माईल, ईमाम नुर सद्गोर, ईमाम ईस्माईल सानी, सैयद नुर महमंदशाह, सैयद पीर ईमामशाह.

हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्रसुलिल्लाहे.

realpatidar.com

realpatidar.com

પરમાત્માને પામવાનું આ પ્રથમ પગલું લશણ, ડુંગળી, હીંગ, તમાકુ, અફીણ, ગાંજો, ભાંગ, દારૂ, માંસ, વ્યાજ, ગળી વગેરેનો ત્યાગ છે.

પરમાત્માને પામવાનું આ પ્રથમ પગલું લશણ, ડુંગળી, હીંગ, તમાકુ, અફીણ, ગાંજો, ભાંગ, દારૂ, માંસ, વ્યાજ, ગળી વગેરેનો ત્યાગ છે.

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n12/mode/1up

realpatidar.com

પરમાત્માને પામવાનું આ પ્રથમ પગલું લશણ, ડુંગળી, હીંગ, તમાકુ, અફીણ, ગાંજો, ભાંગ, દારૂ, માંસ, વ્યાજ, ગળી વગેરેનો ત્યાગ છે.

ધી ફીનીક્ષ પ્રિ. વર્કસ અમદાવાદ.

પરમાત્માને પામવાનું આ પ્રથમ પગલું લશણ, ડુંગળી, હીંગ, તમાકુ, અફીણ, ગાંજો, ભાંગ, દારૂ, માંસ, વ્યાજ, ગળી વગેરેનો ત્યાગ છે.

ધી ફીનીક્ષ પ્રિ. વર્કસ અમદાવાદ.

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n13/mode/1up

realpatidar.com

शजदो करते वखत निचे प्रमाणे भणवुं

'' ॐ फर्मान बिस्मिल्लाह हिर्रे हमां निर्रही. ''

'' हक्कलाऐलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्र सुलिल्ला हे ''

नसरुम मिनल्लाह फतहन खरीब

'' बुराख ''

'' या अली सवार दुल दुल ''

'' या हन्नानुं , या मन्नानुं , या दय्यानुं या रहीमु ''

नांदे अलीयन . मजहरल. अजाईब , तजीद हुं.

औनललका फिन्नवाईब कुल्लु हुम्मीन व गम्मीन सयनजली.

बी रहमती का या अल्लाहुं . व बी नुबुवती का या मुहमंद व

बी बीलायती का या अलीयुं या अलीयुं या अलीयुं.''

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n14/mode/1up

realpatidar.com

" मोहोर नबूवतनो धर्म "

सवारना पोहोरमां मोहोर नबुवतना दर्शन करे तो , ईमाम झयनुल आबे दीन नुं मोंह जोयानुं फल थाअे. दीन पोहर चडतां मोहोर नबुवतना दर्शन करे तो, माता फात माहना दर्शन कर्यानुं फल थाअे. बपोरे मोहोर नबुवतना दर्शन करे ते नबी साहेबनी मजलीसमां बेठानुं फल थाअे. गाछलो दिन घडी चार होअे त्यारे मोहोर नबुवतना दर्शन करे तो ईमाम हसन हुश्येननी दस पोसी लीधानुं फल थाअे. सांझने वखते मोहोर नबुवत ना दर्शन करे तो, शाहे मर्दा मुर्तुझा अली नी दस पोशी लीधानुं फल थाअे. रात पोहोर जतां मोहोर नबुवतना दर्शन करें , तथा वांचे , तथा सांभले तो , तेने नबी साहेबनुं मोंह जोयानुं फल थाअे. तथा पांच तन पाकनुं चरण धोई पीधानुं फल थाअे. जो माणस मरतां मरतां मोहोरे नबुवतनां दर्शन करे तथा वांचे तथा काने सवाल पडे , तो तेनु रुह कब्झ करतां सोहेलुं थाअे तथा साहेब दिदार आपे . ते जीवने भिस्त नसीब करे.

संपूर्ण

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n15/mode/1up

realpatidar.com

" मोहोर नबुवतनुं फळ. "

एवा छो वखत दान मध्ये मोहोर नबुवतना दर्शन हररोज करीअे अेम करता जोई नाशकीअे तो , अेक दहाडामां अेक वार जोईअे. अेम करता जोई ना शकीअे तो , दिन आठ मांहे अेक वार जोईअे. अेम करता जोईअे. अेम करता जोई ना शकीअे तो , वरस अेक मांहे अेक वार जोईअे. अेम करता जोईना शकीअे तो , उंमर सर्वे मांहे अेक वार जोईअे, तो तेने साहेब भिस्त नसीब करे , जे काम करवुं होय तो , मोहर नबुवत वांचीने करे तो ते काम फत्तेह थाअे. बोल बाला थाअे. मोहर नबुवत जोयानुं सर्वने धर्म छे. कंथते पीर सुदरदीन , पीर कबीरदीन , सद्गोर पात्र ब्रम्हा ईद्र ईमामशाह, नरअली महमंदशाह.

हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्ला हो महमंदुर्रसुलिल्ला हे ।

संपुर्ण

realpatidar.com

realpatidar.com

ॐ मर्दा ने नवरावावानी अेटले मरण पामेलाने पवित्र करवानी दुआ ॐ

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेह्मां निर्रहीम. –

सद्‌गोर पात्र ब्रम्हा ईन्द्र ईमामशाह आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंद शाह तमारी दुआ. स्वामी तमे हेतधरियुं , हेतथी नीर उपाया, नीर थी बांध्या जुग चार. चार दिशाअे कर्यो प्रकाश . नीर खर्चु पिंडथीसार. ते नीरे पवित्र विस्तार . नीरे कर्यो नुर. पवित्र मांडया घटने पाट. नव्वाणुं क्रोडी झाखा. छप्पन क्रोडी मेघा बत्रीस क्रोडी किन्नर . तेत्रीास क्रोडी देवता. अठयासी शेहेस्त्र ऋषि. अेक लाख अेंसी हजार पीर पेगम्बर पाम्या मोक्ष मुगतनी वाट. सद्‌गोर पीर सलाहोदीन सद्‌गोर पीर शम्सदीन . सद्‌गोर पीर नशीरदीन. सद्‌गोर पीर साहेबदीन . सद्‌गोर पीर सुदरदीन सद्‌गोर पीर कबीरदीन . सद्‌गोर पीर ईमामशाह आजीवने पवित्र करो दुःख दोहला दूर करो. मोक्षमुगत नो मारगा आपो तमे पवित्र तमारो सेवकोने पवित्र करवानो धर्म छे. तमारे धर्मे तमारे कर्मे आ जीवनी देह पवित्र करो. तेत्री क्रोडीना मेलामां राखो फर्मान 'पीरशाह' हक्कलाअेलाह ईल्लिल्ला हो महमंदुर्श सुलिल्लाहि.

(आ. दुआ भणी मडा उपर पाणी नाखी मडुं धोवुं. मुकामे लईजाता 'श्री निष्कलंकीनुं ' स्मरण कखुं तोबा तोबा कखुं : जापना मंत्र नो उचार करता रहेवुं)

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n17/mode/1up

realpatidar.com

ॐ मडाने भोमदाग अेटले मरदाने दाटवानी दुआ ॐ

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह् हिर्रेहमां निर्रहीम.

सद्गोर पात्रब्रम्हा ईन्द्रईमामशाह आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह तमारी दुआ. स्वामी तमे प्रथम रोप्यासत्य. सत्यथी दत्त. दत्तथी क्षमा. क्षमाथी हेत. हेतथी नीर. नीरथी खीर. खीरथी नील. नीलथी अनील. अनीलथी फीण. फीणथी खाक. खाकते सदाअे पाक. स्वामी नीरथी पवन . पवन थी अगन. अगनथी रची खाक. जुग चारना चार दाग. खाक पाक मोक्ष मुगतनी वाट. सत्पंथी जीवने आली हाथ. चार जुगना दश अवतार. दश अवतारें चार दाग . श्री मच्छनी रक्षा. श्री. कोरंभनी रक्षा. श्री व्याराहनी रक्षा. श्री नरसिंहनी रक्षा. श्रीवामन नी रक्षा. श्री परसुरामनी रक्षा. श्री रामनी रक्षा. श्री कृष्णनी रक्षा. श्री बुध्दानी रक्षा. श्री निष्कलंकी नारायण ते श्री मव्ला मुर्तुझा अलीनी रक्षा. आज कलवारे खाक पाक पवित्र भोमदाग. सद्गोर नबी महमंद पाक, सद्गोर नुरपाक , श्री सद्गोर शम्य पीर, पाक, श्रीगोर नसीरदीन पाक, श्रीगोर साहेबदीन पाक, श्रीगोर सुदरदीन पाक. श्रीगोर कबीरदीन पाक, श्रीगोर ईमामशाह नरअली महमंदशाह पाक, मव्लाना सत्पंथी जीवनी सोहेली करो मोक्षमुगत नी वाट. चारे जुगना भुलेला जीव सत्पंथाना आशरे

realpatidar.com

realpatidar.com

ॐ मनाअे फुल चढावी भणावानी दुआ ॐ

(कबरे फुल वगेरे मुकी छेटे जई भणवानी दुआ. आ दुआ मना (कबर) थी चालीस डगला छेटा जई भणवी)

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम.

सद्‌गोर पीर नशीरदीन , सद्‌गोर पीर साहेबदीन. सद्‌गोर पीर सुदरदीन , सद्‌गोर पीर कबीर दीन, सद्‌गोर पीर ईमामशाह . आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंद शाह आ सत्पंथी जीवने मनाअे चढावेला फुल फातिओ , तेनी आत्माने पोहचडावो. तमारो सत्पंथी जीव छे. तमोतेना धणी छो. तमारी सरणे आवेलो छे. तेने ओध्दार आपो. सुखनो मार्ग सोहेलो करो. दुःख दोहेला दुर करो. नबीनुर सद्‌गोर पात्र ब्रम्हा ईन्द्र ईमामशाह निरंजन नरअली महमंदशाह .

हक्क लाअे लाह ईल्लिल्ला हो महमंदुई सुलिल्ला हि.

मडाने भोमदाग आप्या पछी ॐ नाहवानी दुआ ॐ

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहाम.

सद्‌गोर पात्र ब्रम्हा ईन्द्र ईमामशाह आद्य विष्णु नारायण श्री निष्कलंकी नरअली महमंदशाह तमो पाक पावन छो. जीवोने पाक पावन करवा जोग छो मारा स्थुल शरीर साथे जीवने पाक पावन करो. करम मेहेरकरी हमारी अर्जी कबुल करो. नबीनुर महमंद श्री ईमामशाह नरअली महमंद शाह.

हक्क लाअेलहा ईल्लिल्लाहो महमंदुईसुलिल्लाहि.

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n19/mode/1up

realpatidar.com

बीजनो चंद्र जोवानी दुवा

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .
सद्गोर पात्र ब्रम्हा ईंद्र ईमामशाह. आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंदशाह नबीनुर सद्गोर तमारी दुवा. बरकत , रहेमत साहेब सलामत. अरज उमेदवार. आज हो चंद्रमागोर. तमे सतीयानां सत राखजो. नबीनी उम्मतना करगर्या कान धरजो. समर्या सहाय करो. कीधा गुनानी क्षमा बक्षो. बीजा गुना ना करावशो. झाखा , मेघा, कीन्नर, तेत्रीस करोडीना मेळा आलो अनंत करोडीनी सोबतमां राखो. लक्ष चोराशीना फेरा टाळो. सद्गोर ईमामशाह, नरअली महमंदशाह
हक्क लाअेलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्र सुलिल्लाहे.

(चंद्रना दर्शन करीने मा – बाप ने
पगे लागवानुं छे. पछी बीजा
वडीलो ने मळवुं ने कहवुं के
चंद्र देखी हेजंदा .)

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n20/mode/1up

realpatidar.com

सूर्यना आसण सामे उभा रही भणवानी दुवा

ॐ फर्मानजी बिस्मिल्लाह हिर्रेहमां निर्रहीम .

सद्‌गोर पात्र ब्रम्हाा ईद्र ईमामशाह , आद्य विष्णु निरंजन नरअली महमंद शाह नबीनुर सद्‌गोर तमारी दुवा. उगता सूर्य, आथमता भाण. नरबीज ते नर महमंदशाह नाम पढते गोर गायत्री, जपे तपे बींब उपाया, तब तमे सूर्य देवता . तमारा चरणे आया, अबदुल्लाह जब्बार , अबदुल्लाह सत्तार , अबदुल्लाह गफ्फार अबदुल्लाह रहीम अबदुल्लाह करीम , चारपीर महमंद शफाअत. अेटली दुवा भणे. उनकुं दोझख हराम. सद्‌गोर ईमामशाह , नरअली महमंदशाह. हक्क लाअंलाहा ईल्लिल्लाहो महमंदुर्र सुलिल्ला हे.

संपूर्ण

realpatidar.com

https://archive.org/details/UndatedSatpanthiDuvaoAneAarti144D/page/n21/mode/1up

realpatidar.com

श्री ओम निष्कलंकी नारायनी आरती

जयदेव जयदेव जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी.
आरती कीजे नकलंकी देवनी अक्षय पदधांमी. जयदेव जयदेव
प्रथम मच्छा अवतार, मार्यो शंखासुर पापी.
चारे वेद आणीने. दीधा ब्रम्हाने आपी. जयदेव जयदेव
बीजे मच्छा अवतार. पर्वत पीढ जापर धर्या.
सात समुद्र मंथन करीने. चौद रत्न काढ्या. जयदेव जयदेव
त्रीजे वेराह अवतार. मार्यो मोरध्वज पापी.
दाढे ग्रही लई आव्या. वेराह अवनी उपर स्थापी. जयदेव जयदेव
चोथे नरसींह अवतार. मार्यो हरणा कंशा पापी.
नख वधारी मार्यो पापी. लई नरसींह रुप. जयदेव जयदेव
पांचमे महाबली राय देखी. सुरीजन देवोकंप्या
वामनरुप धरीने . बळीने पाताळे चांप्या. जयदेव जयदेव
छठे फरसुराम अवतार. फरशी हाथोमां लीधी.
सहस्त्र अर्जुन मारी. पृथ्वी नक्षत्री कीधी. जयदेव जयदेव
सातभे राम अवतार . आनंद कौसल्य पांमी.
दशमुखा रावणने. मार्यो सीताना स्वामी. जयदेव जयदेव
आठ मे मथुरामां अवतार. कृष्ण गोकुळ गौधारी.
मामा कंशने मार्यो. गोवर्धन धारी. जयदेव जयदेव
नवमे बुध्द अवतार. भार पृथ्वी पर वध्यो.
ध्यान धरी धरणी धर बेठा . योग युगत साध्यो. जयदेव जयदेव
दशमे नकलंकी अवतार. पृथ्वी नकलंकी करशे.
मलेच्छ रुप धरीने. हरी सुध सेवकनी लेशे. जयदेव जयदेव
दश अवतारानी आरती. जे काई भावे गाशे.
आरती बोल्या सद्गुरु ब्रम्हा मोक्षगती थाशे. जयदेव जयदेव

– पाये पडी –

बोलो गुरु ईमामशाह बावानी जय. आद्यविष्णु नरअली महमंदशाह बावानी जय. हाजर बेग महाराज की जय . सत्पंथ सनातन धर्मनी जय. श्री निष्कलंकी नारायण देवनी जय. नाया काकानी जय. भाभाराम महाराजनी जय. गादीदार महाराज हाजर जामा साहेबनी जय.

realpatidar.com